

प्रेस नोट- दिनांक 28.07.2022

गुमशुदा व्यक्ति को सकुशल बरामद कर परिजन को सुपुर्द किया गया ।

श्री अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में, श्री संजय कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 28.07.2022 को 01 गुमशुदा व्यक्ति को सर्विलांस सेल, सिद्धार्थनगर टीम की मदद से उप-निरीक्षक श्री चंद्रशेखर पांडेय थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर, मय हमराह द्वारा तलाश करते हुए सकुशल बरामद कर उनके परिजन को सौंपा गया ।

प्रेस नोट दिनांक 28.07.2022

जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ आदि स्थानों पर नव युवकों, महिलाओं और लड़कियों को महिला सुरक्षा व मिशन शक्ति के संबंध में जानकारी दी गई तथा मनचलों एवं शोहदों पर कार्यवाही हेतु चेकिंग की गयी।

*श्री अमित कुमार आनन्द , पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में मनचलों एवं रोमियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 28.07.2022 को शक्ति मोबाइल / प्रभारी एण्टी रोमियो महिला उ0नि0 श्रीमती पूनम मौर्या द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत थाना सिद्धार्थ नगर, मोहाना, कपिलवस्तु थानाक्षेत्र में स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थानाक्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की गयी।

एण्टी रोमियो टीम का विवरण-

- 01- महिला उ0नि0 श्रीमती पूनम मौर्या प्रभारी एण्टी रोमियो जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02- आरक्षी रामविलास एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 03- आरक्षी राकेश यादव एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 04- महिला आरक्षी रीनू एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक 28.07.2022

श्री अमित कुमार आनन्द पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में एवं श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता में श्री हरीश चन्द्र, पुलिस उपाधीक्षक यातायात/कार्यालय एवं निरीक्षक श्री बृजेश सिंह, प्रभारी ए0एच0टी0यू0 द्वारा किशोर न्याय अधिनियम एवं मानव तस्करी तथा बाल संरक्षण के मुद्दों पर एक समन्वय बैठक का आयोजन पुलिस लाईन सिद्धार्थनगर के सभागार के कक्ष में आयोजित की गयी ।

बैठक में उपस्थित पुलिसकर्मियों एवं एस0एस0बी के अधिकारी एवं कर्मचारीगण को श्री नीरज शर्मा द्वारा बच्चों के द्वारा कानून के साथ संघर्षरत बच्चों के साथ पुलिस द्वारा कैसे व्यवहार किया जाये, इस सम्बंध में जानकारी प्रदान की गयी, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा समस्त बाल कल्याण अधिकारियों को यह बताया गया कि बच्चों के विरुद्ध अपराध के मामले में यदि कोई अभियोग पंजीकृत होता है तो इसकी सूचना तत्काल बाल कल्याण समिति, सिद्धार्थनगर को देना सुनिश्चित करेंगे।

बैठक में निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा प्रतिभाग किया गया |

- 1- श्री विनोद राय, जिला प्रोबेशन अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
- 2- श्री वीरेन्द्र मिश्रा, बाल कल्याण समिति, सिद्धार्थनगर
- 3- श्री यतेन्द्र शर्मा, एस0एस0बी0 50वीं वाहिनी, बड़नी जनपद सिद्धार्थनगर।
- 4- स0उ0नि श्री गोरु गोपाल अधिकारी, एस0एस0बी0 43वीं वाहिनी सिद्धार्थनगर।
- 5- श्री हरिकेश दूबे, समन्वयक प्लान इण्डिया सिद्धार्थनगर ।
- 6- श्री नीरज शर्मा, यूनिसेफ बस्ती।
- 7- श्री सुनिल उपाध्याय, चाईल्ड लाईना
- 8- श्री जय प्रकाश गुप्ता, मानव सेवा संस्थान, गोरखपुर।
- 9- जनपद सिद्धार्थनगर के समस्त थानों से बाल कल्याण अधिकारीगण।
- 10- ए0एच0टी0यू0, एस0एस0बी0, एन0जी0ओ0 के कर्मचारीगण।

ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान जनपद सिद्धार्थनगर |

श्री अखिल कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन, गोरखपुर महोदय द्वारा चलाये रहे अभियान त्रिनेत्र के अंतर्गत श्री अमित कुमार आनन्द के सफल निर्देशन एवं श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में जनता, समाजसेवी संस्थानों एवं ग्राम प्रधान से परस्पर सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित करते हुए

जनपद सिद्धार्थनगर के थाना लोटन के कस्बा लोटन बाजार में, ग्राम प्रधान श्री सुनील सिंह, व पेट्रोल पंप स्वामी श्री जितेंद्र उपाध्याय के सौजन्य से लोटन-कोल्हुई मार्ग पर 04 कैमरे थाना लोटन अंतर्गत ठोठरी तिराहा नेपाल-बार्डर बाजार, पर ग्राम प्रधान एकबिगवा श्री पंकज वर्मा के सौजन्य से 04 कैमरे एवं थाना शोहरतगढ़ के देवकली तिराहा पर समाजसेवी श्री संजय श्रीवास्तव जी के सौजन्य से 04 कैमरे अधिष्ठापित कराए गए ।

उक्त कैमरा 4 मेगापिक्सल 45 दिन के बैकअप इनवर्टर बैकअप से युक्त है । इनसे अपराधिक वाह असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सकेगी ।

प्रेस नोट दिनांक 28-07-2022

महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई-किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 02 परिवार को बिखरने से बचाया गया ।

श्री अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 28-07-2022 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया । इस आयोजन में 04 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई जिसमें परामर्श के बाद 02 पत्रावली का सफल निस्तारण कर परिवार को बिखरने से बचाया गया व अन्य 02 पत्रावलियों में वार्ता प्रचलित है । 02परिवार को बिखरने से बचाने में महिला थानाध्यक्ष श्रीमती मीरा चौहान, महिला हेड कांस्टेबल सविता सिंह, महिला आरक्षी नेहा सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

निस्तारित पत्रावली का विवरण

1. पूजा पत्नी अरुण वर्मा साकिन परसोहिया, थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
2. लक्ष्मी पत्नी सीता राम साकिन कस्बा शोहरतगढ़ ,थाना शोहरतगढ़ ,जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट- थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 28.07.2022

थाना चिल्हिया पुलिस द्वारा 01 नफर वारन्टी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

डॉ. अमित कुमार आनन्द पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन, श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में, श्री दीपक कुमार थानाध्यक्ष थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 28.07.2022 को माननीय न्यायालय सिद्धार्थ नगर द्वारा निर्गत वारंट फौजदारी वाद सं 592/2002 से सम्बन्धित वारंटी राजकुमार को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार वारंटी का विवरण -

01. राजकुमार पुत्र राधेश्याम साकिन कंदवा थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम

01. व0उ0नि0 नंदा प्रसाद

प्रेस नोट दिनांक 28.07.2022 थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर

नशीली दवा 210 टैबलेट NITRAVET.10 नशीली गोली व एक अदद हीरो स्पलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल के साथ थाना मोहाना पुलिस द्वारा दो नफर अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार, भेजा जेल

श्री अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं श्री सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मोहाना श्री संतोष कुमार सिंह थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में *अपराध एवं अपराधियों के बिरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत दिनांक 28.07.2022 को 02 नफर अभियुक्तगण को चिल्हिया मोड़ से नशीली दवा 210 टैबलेट NITRAVET.10 नशीली गोली व एक अदद हीरो स्पलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स.169,170 /2022 धारा 8/21/23 NDPS Act पंजीकृत किया गया । नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

**

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. अभिषेक कुमार पुत्र गोरखनाथ सा0 कउववा थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर उम्र 24 वर्ष
2. दुर्गेश कुमार पुत्र दशरथ प्रसाद सा0 कउववा थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर उम्र 22 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 सभाशंकर यादव चौकी प्रभारी शुद्धोधन थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर
2. का0 शिवचन गुप्ता थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर
3. का0 विशाल वर्मा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनांक 28.07.2022 थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर

**

06 बोरी यूरिया खाद व दो अदद साइकिल के साथ 01 नफर अभियुक्त अन्तर्गत धारा 11 कस्टम अधि0 के तहत मोहाना पुलिस ने किया बरामद

**

श्री अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं श्री सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 28.07.2022 को अपराध की रोकथाम हेतु बॉर्डर पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत 06 बोरी यूरिया खाद व दो अदद साइकिल के साथ ककरहवा बाग से गिरफ्तार किया गया तथा जिसे धारा 11 कस्टम अधिनियम के तहत कस्टम कार्यालय ककरहवा में दाखिल किया गया।

*

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. राजकुमार प्रजापति पुत्र पुन्नाले सा. बभनी थाना लुम्बनी जनपद रुपनदेही राष्ट्र नेपाल उम्र 23 वर्ष बरामद करने वाली पुलिस टीम
1. उ0नि0 अजयनाथ कन्नौजिया चौकी प्रभारी ककरहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर
2. का0 राजू कुशवाहा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट- थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 28.07.2022

*03 नफर वारण्टी को गिरफ्तार कर,माननीय न्यायालय भेजा गया

श्री अमित कुमार आनंद पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में श्री गौरव सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर* के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के

विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 28.07.2022 को 03 नफर वारण्टी को गिरफ्तार कर, माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार वारण्टी का विवरण:-

01. हवीबुल्लाह पुत्र बरसाती उम्र 50 वर्ष साकिन वासादरगाह थाना भवानीगंज सिद्धार्थनगर
- 02 श्रवण पुत्र प्रकाश उम्र 30वर्ष
- 03 पवन पुत्र प्रकाश साकिनान 29 वर्ष अहिरौला टोला रजियाडिह थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01. SI श्री विनय कुमार यादव
 - 02.HC प्यारेलाल भारती
 03. C आनन्द प्रिय
- थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थ नगर।